

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद सोनभद्र

दिनांक- 09.08.2022

क्राइम ब्रांच एवं थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 150 ग्राम हेरोइन (कीमती लगभग 15 लाख रुपये) के साथ 02 नफर तस्कर गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में दिनांक 08.08.2022 को समय लगभग 16.00 बजे क्राइम ब्रांच एवं थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पन्नूगंज रोड धुवास के पास से मोटरसाइकिल सवार 02 नफर हेरोइन तस्कर 01. इम्तियाज अंसारी पुत्र इरशाद अंसारी निवासी वार्ड नम्बर 22 पूरब मुहाल, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 30 वर्ष एवं 02. अब्दुल मजीद उर्फ बच्चा मास्टर पुत्र रमजान अली निवासी वार्ड नम्बर 21 दरोगा जी की गली, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 42 वर्ष को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 40 ग्राम हेरोइन एवं 110 ग्राम हेरोइन (कुल 150 ग्राम हेरोइन कीमती लगभग 15 लाख रुपये) बरामद किया गया। उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0- 578/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0- 579/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण -

01. इम्तियाज अंसारी पुत्र इरशाद अंसारी निवासी वार्ड नम्बर 22 पूरब मुहाल, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
02. अब्दुल मजीद उर्फ बच्चा मास्टर पुत्र रमजान अली निवासी वार्ड नम्बर 21 दरोगा जी की गली, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

बरामदगी का विवरण-

- 1- कुल 150 ग्राम हेरोइन (अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये)।
- 2- एक अदद मोटरसाइकिल (UP64 AM2476)।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में गिरफ्तार तस्करों द्वारा बताया गया कि चुनार, जनपद मीरजापुर का कोई व्यक्ति उक्त मादक पदार्थ उन्हें अहरौरा में देता है जिसे वह नहीं जानते। उक्त मादक पदार्थ इनके द्वारा बेचा जाता है तथा खुद भी सेवन किया जाता है। गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास भी रहा है जो निम्नवत है -

01. अब्दुल मजीद उर्फ बच्चा -

01. मु0अ0सं0 - 361/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
02. मु0अ0सं0 - 455/2019 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
03. मु0अ0सं0 - 507/2019 धारा 41, 411 भादवि, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

02. अभियुक्त इम्तियाज अंसारी -

01. मु0अ0सं0 - 577/2019 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी एसओजी, जनपद सोनभद्र।
2. निरीक्षक अमित सिंह, प्रभारी सर्विलांस, जनपद सोनभद्र मयटीम।
3. उ0नि0 संजय कुमार सिंह, चौकी प्रभारी कस्बा रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 अतुल सिंह, हे0का0 शशि प्रताप सिंह, का0 सतीश पटेल, का0 रितेश पटेल एसओजी/स्वाट टीम जनपद सोनभद्र।
5. हे0का0 विजय शंकर यादव, का0 अजीत यादव, चौकी कस्बा रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।